



श्री महावीर दिगम्बर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय
Shri Mahaveer Digambar Jain Sr. Sec. School
Mahaveer Marg, Ashok Nagar, C-Scheme, Jaipur-302001

दिनांक – 02/07/2018

प्रेस विज्ञप्ति

महावीर स्कूल के आचार्य राजेन्द्र मोहन शर्मा का अभिनंदन

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की कला विज्ञान और वाणिज्य संकाय की छात्रों पर छात्रों द्वारा परीक्षा परिणामों में महावीर स्कूल द्वारा स्थापित किए गए कीर्तिमान के फल स्वरूप आज आयोजित एक समारोह में संस्था की प्रबंध समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री ज्ञान चंद झांझरी ने महावीर स्कूल के आचार्य श्री राजेन्द्र मोहन शर्मा का अभिनंदन किया।

इस अवसर पर संस्था के संयोजक श्री मुकुल कटारिया भी उपस्थित थे। संस्था के आचार्य राजेन्द्र शर्मा ने अवगत कराया कि विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग में इस वर्ष संस्था के परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहे हैं। इतना ही नहीं तीनों फैकल्टीज में छात्र-छात्राओं ने 90% से भी अधिक अंक प्राप्त करके नया कीर्तिमान बनाया है। संस्था के लिए

गौरवान्वित होने की बात है कि संस्था में एक भी विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हुआ है। 75% से अधिक विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री ज्ञान चंद जी ने कहा कि टीम लीडर के रूप में शर्मा का नेतृत्व सराहनीय रहा है इसी के उपलक्ष में आज शर्मा जी का सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने कहा संस्था के समस्त गुरुजनों ने अपने अथक मेहनत और ऊर्जा से यह श्रेष्ठ कीर्तिमान स्थापित करने में योगदान दिया है उन्हें भी प्रबन्ध समिति की ओर से हार्दिक बधाई है।

उन्होंने कहा कि संस्था विगत 4 वर्षों से अपने सामाजिक योगदान के लिए जानी जा रही है जिसके अंतर्गत महावीर स्कूल में कक्षा 6 से 11 तक प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है अब तक 4 वर्षों में लगभग 12 छात्राओं को निशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है। इसी के साथ सेना में शहीद होने वाले सैनिकों के आश्रित बालक बालिकाओं को संस्था द्वारा पूरी शिक्षा निशुल्क प्रदान की जाती है। सेना में कार्यरत सैनिकों के बच्चों की फीस भी आधी ली जाती है इस प्रकार महावीर स्कूल अपने सामाजिक योगदान के लिए भी पहचान बनाने में कामयाब रहा है।

(राजेन्द्र मोहन शर्मा)

आचार्य